

# संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56463-56469]

शुक्रवार, 17 मार्च, 2017

सं.56463

पटल कार्यालय

**सोमवार, 20 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज (17-03-2017) सभा में वक्तव्य दिया कि सोमवार, 20 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. आज की कार्यावलि से आगे ले जाई गई सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -
  - (क) केंद्रीय बजट, 2017-18 पर आगे सामान्य चर्चा।
  - (ख) निम्नलिखित मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा:-
    - (i) रेल;
    - (ii) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; और
    - (iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा।
3. लोक सभा द्वारा यथापारित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार तथा लोक सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति।
4. निम्नलिखित अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों पर, लोक सभा द्वारा इन्हें पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा लौटाया जाना:-

- (क) 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें ( सामान्य);  
(ख) 2017-18 के लिए अनुदान मांगें ;  
(ग) 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे (रेल); और  
(घ) 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगे।
5. वित्त विधेयक, 2017 पर, लोक सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा लौटाया जाना।
6. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर विचार तथा पारण।
7. लोक सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारण:-
- (क) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016.  
(ख) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016.

सं.56464

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

**दिनांक 21 मार्च, 2017 को म. प. 6.15 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध में  
"कार्यरत राज्य सभा" के तीसरे संस्करण का विमोचन**

'कार्यरत राज्य सभा' प्रक्रियाओं, परिपाटियों, परम्पराओं, पूर्वोदाहरणों, विनिर्णयों और निदेशों का एक संकलन है जो राज्य सभा की कार्यप्रणाली की बारीकियों को समझने में सदस्यों का मार्गदर्शन और सहायता करता है। इस पुस्तक का प्रकाशन सर्वप्रथम वर्ष 1996 में किया गया था और इसका दूसरा संस्करण वर्ष 2006 में प्रकाशित हुआ था।

2. अब इस पुस्तक का तीसरा संस्करण तैयार है और इसका विमोचन राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को म.प. 6.15 बजे मुख्य समिति कक्ष, भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में किया जाएगा।

3. निमंत्रण कार्ड तथा कार्यक्रम का ब्यौरा राज्य सभा के सदस्यों को पहले ही जारी कर दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में भाग लें।

सं.56465

विधायी अनुभाग

### नियम 180 के अधीन ध्यान दिलाए जाने की सूचना

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 180 के अधीन ध्यान दिलाए जाने की निम्नलिखित सूचना उसके सामने दर्शायी गई अनंतिम तारीख के लिए गृहीत कर ली गई है:-

#### ध्यानाकर्षण का विषय

विशेष श्रेणी दर्जा की अवधारणा को जारी रखने की अनिवार्यता पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता।

#### अनंतिम तारीख

21 मार्च, 2017

सं.56466

विधायी अनुभाग

### नियम 176 के अधीन चर्चा

'आधार - इसका कार्यान्वयन और प्रभाव' विषय पर चर्चा के लिए राज्य सभा सदस्यों श्री राजीव चंद्रशेखर, श्री नरेश गुजराल, श्री परिमल नथवानी, श्री देरेक ओब्राईन, श्री जयराम रमेश और श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह से प्राप्त सूचनाएं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के नियम 177 के अधीन बुधवार, 22 मार्च, 2017 को राज्य सभा में चर्चा के लिए अनंतिम रूप से स्वीकृत कर ली गई है।

सं.56467

सम्मेलन और नयाचार अनुभाग

### डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती

डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए बृहस्पतिवार, 23 मार्च, 2017 को मध्याह्न पूर्व 10.30 बजे केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में, जहाँ डॉ. राम मनोहर लोहिया का चित्र लगा हुआ है, एक समारोह आयोजित किया जाएगा। गणमान्य व्यक्ति, संसद सदस्य और आमंत्रित व्यक्ति इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं।

सं.56468

युगपत् भाषान्तरण सेवा

### ध्वनि व्यवस्था में व्यवधान को दूर करना

यह देखा गया है कि कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान से उठते समय अपने इयरफोन के वाल्यूम नॉब को बन्द नहीं करते हैं जिसके कारण सभा की ध्वनि व्यवस्था में व्यवधान आ जाता है। अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब वे अपने स्थान से उठें तो नॉब को बाईं ओर घुमा दें।

सं.56469

प्रश्न शाखा

### प्रश्नों की सूचनाओं के बैलट का परिणाम

राज्य सभा की 3 अप्रैल, 2017 को होने वाली बैठक के लिए 17 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 17 मार्च, 2017 को अपर सचिव (क्यू.) की उपस्थिति में बैलट कराया गया।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलट के परिणाम को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

शमशेर के. शरीफ,  
महासचिव।